

Date: 14/07/2023

To,

The Listing Compliance Department,

BSE Limited,

P. J. Tower, Dalal Street,

Mumbai - 400001

Scrip Code: 534809

To,

The Listing Compliance Department,

National Stock Exchange of India Limited,

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai - 400051

**Symbol: PCJEWELLER** 

**Sub.: Newspaper Publications** 

Dear Sir / Ma'am,

Please find enclosed herewith the newspaper publications made by the Company on July 14, 2023 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) titled as "Notice to the Shareholders - Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund" pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For PC Jeweller Limited

VIJAY

Digitally signed by VIJAY PANWAR PANWAR Date: 2023.07.14 12:13:54 +05'30'

(VIJAY PANWAR)

**Company Secretary** 

Encl.: As above

## PC Jeweller Limited

## ROSELABS FINANCE LIMITED

CIN - L70100MH1995PLC318333

Regd. Office: 412, Floor- 4, 17G , Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road, Homiman Circle, Fort, Mumbai - 400 001

Tel.: 91.22.67737373 Fax: +91.22.23024420

Website: www.roselabsfinancelimited.in, E-mail: roselabsfinance@lodhagroup.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

Sr. No.	Particulars	For t	For the year ended		
		30-Jun-23 (Unaudited)	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23
			(Audited)	(Unaudited)	ited) (Audited)
1	Total Income from Operations	1.5	8.04	(-)	15.08
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(4.30)	(14.49)	(4.59)	(54.13)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(4.30)	245.92	(4.59)	206.28
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(4.30)	245.92	(4.59)	201.59
5	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(4.30)	245.92	(4.59)	201.59
6	Equity share capital (Face Value of ₹ 10 each)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				(1,430.39)
8	Earnings Per Share (Face Value of ₹ 10 each) (not annualised) Basic and Diluted	(0.04)	2.46	(0.05)	2.02

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e www.roselabsfinancelimited.in

For Roselabs Finance Limited Sanjyot Rangnekar "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

Place: Mumbai Date: 13-July-2023

Director (DIN: 07128992)

**GRP LIMITED** CIN: L25191GJ1974PLC002555

Registered Office: Plot No.8, GIDC Estate, Ankleshwar - 393 002, Gujarat, Tel no.: 02646 250471. E-mail id: investor.relations@grpweb.com, Website: www.grpweb.com

## Notice of 49th Annual General Meeting (AGM) and e-voting

- 1. Notice is hereby given that the 49th Annual General Meeting ("AGM") of GRP Limited will be held on Friday, 4th August, 2023 at 12.30 p.m. IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder, the ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR"), without the physical presence of
- 2. In compliance with the MCA Circulars, SEBI Circulars, the requirement of sending physical copy of the AGM Notice and Annual Report to the Members have been dispensed with and accordingly, the Notice of the 49th AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 has been sent by email on Thursday, 13th July, 2023 to those Members whose email addresses are registered with the Company /respective depository Participant/s ("DP's").
- 3. The Notice of the 49th AGM and the Annual Report are also available on website of the Company at www.grpweb.com and the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice of the 49<sup>th</sup> AGM is also available on the website of National Securities Depository Ltd. ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.
- The Company has engaged the services of NSDL as the authorized agency for conducting of the AGM through VC/OAVM facility and for providing electronic voting ("e-voting") facility to its members, to exercise their votes through the remote e-voting and e-voting at the AGM.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date, may cast their votes on the business as set forth in the Notice of the 49th AGM, electronically by remote e-voting system of NSDL.
- 6. In terms of the MCA circulars, since the physical attendance of the members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies Accordingly, the facility of appointment of proxies by the members under section 105 of the Act, will not be available for the AGM.
- 7. The business as set forth in the AGM Notice may be transacted through remote e-voting or e-voting at the AGM. The members may be informed that:
- a. The remote e-voting shall commence on Tuesday, 1st August, 2023 at 9:00 a.m. (IST);
- b. The remote e-voting shall end on Thursday, 3rd August, 2023 at 5:00 p.m. (IST);
- c. Once vote on a resolution is cast by member, the same cannot be changed:
- d. Electronic Voting Event Number (EVEN): 124432;
- Cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the AGM, is Friday, 28th July, 2023;
- Record date for determining eligibility of members to receive dividend for the financial year ended 31st March, 2023, if approved at the AGM: Friday, g. If the dividend, as recommended by the Board of Directors, is approved at the AGM, payment of such dividend subject to Deduction of Tax at Source
- ("TDS") will be made within the statutory time limit of 30 days;
- h. Any person, who becomes member of the Company after despatch of the AGM Notice and holds shares as on cut-off date i.e. Friday, 28th July, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting his/her vote. A person who is not a member as on cut-off date should treat this
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 49th AGM may participate in the 49th AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote at the 49th AGM:
- Members attending the 49th AGM and who have not cast their vote by remote e-voting, will be entitled to cast their vote through e-voting system during
- k. The process and manner of remote e-voting and e-voting during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address, is provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company. Shareholders are requested to visit www.grpweb.com to obtain such details; Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the AGM Notice
- Members attending through VC/OAVM facility, shall be counted for the purpose of reckoning the Quorum under section 103 of the Act; m. In case of queries, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the "download" section of www.evoting.nsdl.com. The Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL or evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Email: evoting@nsdl.co.in
- Tel: 91 22 24994545. 8. In order to receive dividend electronically in timely manner, members are requested to register/update their complete bank details:
- with their respective DP's with whom they maintain their demat accounts if shares are held in dematerialized form by submitting the requisite
- b. with RTA, if shares are held in physical form by submitting (i) scanned copy of the signed request letter which shall contains member's name, folio number, bank details such as name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc. (ii) self-attested copy of the PAN Members are also requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail ID, mobile numbers, PAN, mandates, nominations
- 9. Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the members and the Company is required to deduct TDS from dividend paid to the members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961. To enable the company to enable the correct TDS rates, the members are requested to
- furnish prescribed documentation to Universal Capital Securities Pvt. Ltd. ("UCS"), Registrar and Transfer agents ("RTA") on or before Friday, 21st July, 2023. Notice is further given as per Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share

Transfer books of the Company shall remain closed from Saturday, 29th July, 2023 to Friday, 4th August, 2023 (both days inclusive) for the purpose of dividend and AGM for the financial year 2022-23. The dividend of Rs. 17/- per equity share of Rs. 10/- each, if approved by the members at the AGM, will be paid subject to the applicable tax deducted at source ("TDS") within the prescribed time limit.

for GRP Limited

Date: 13th July, 2023 Place: Mumbai

Harsh Gandhi Joint Managing Director (DIN No. 00133091)



## DALMIA BHARAT SUGAR AND INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L15100TN1951PLC000640)

Registered Office: Dalmiapuram, Dist. Tiruchirapalli TN 621651 In Phone No.: 01123465100; Fax No.: 011 23313303

E – mail – sec.corp@dalmiasugar.com

Website: www.dalmiasugar.com

## **Notice regarding 71<sup>st</sup> Annual General Meeting**

Shareholders may please note that the 71<sup>st</sup>Annual General Meeting ("**AGM**") of the Company will be convened through Video Conferencing/other Audio Visual Means on Friday, August 11, 2023at 11.00 AM IST as per the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder ("the Act") read with General Circular Nos. 20/2020 and 10/2022 dated 5<sup>th</sup>May 2020 and 28" December 2022, respectively, and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), without the physical presence of the members at a common venue.

The Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the Company's website www.dalmiasugar.com, websites of the stock exchanges where shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and at the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing remote e-voting facility to the Shareholders through National Securities Depository Limited ("NSDL"). The remote e-Voting period commences on Tuesday, August 8, 2023at 9:00 A.M. and ends on Thursday, August 10, 2023 at 5:00 P.M. During this period, Shareholders holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, August04, 2023, i.e., cut-off date, may cast their vote electronically. The shareholders unable to vote through remote e-voting would be able to do the evoting at the AGM by using their credentials, the details of the credentials are mentioned in the AGM Notice. The detailed procedure for remote e-voting/e-voting during the AGM is also provided in the notice of the AGM.

Shareholders may please take note that the Board of Directors of the Company in their meeting held on May 19, 2023, recommended final dividend of Rs. 1.00 (50%) per equity share for the Financial Year ended March 31, 2023. The final dividend if approved, will be paid to members whose names appear in the Register of Members as on Friday, August 04, 2023.

Shareholders whose e-mail addresses are not registered may temporarily get their e-mail address and mobile number registered with the Company/National Security Depositories Limited by sending a request at sec.corp@dalmiasugar.com/evoting@nsdl.co.in. Shareholders who have registered/not registered their e-mail address and mobile nos. including address and bank details may please contact and validate/update their details and also submit their mandates for receiving the dividend directly into their bank with the Depository Participant in case the shares are held in electronic form and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited in case the shares are held in physical form. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

The e-Voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts / websites of Depositories / DPs. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with NSDL.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after sending of the AGM Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he / she is already registered with NSDL for remote e-Voting then he /she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.

For Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited

Aashhima V Khanna **Company Secretary** Membership No. –ACS34517

## **FORM A** PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

## FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED

1.	Name of Corporate Debtor	<b>CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED</b>
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	10.03,1988
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies-Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	L63011DL1988GOI030915
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Regd. Office: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road Opposite Apollo Hospital, New Delhi – 110044. Corporate Office: CONCOR Annexe, NSIC MDBP Building (3rd Floor), Okhla Industrial Estate, New Delhi – 110020.
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	July 12, 2023
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	Jan 08, 2024 (180 days from Insolvency Commencement Date)
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	VIVEK SHARMA Reg. No.: IBBI/IPA-002/IP-N01077/2020-2021/1344 AFA valid upto: 05.02.2024
9.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	House No. 449, Jheel Khuranja, P.O. Krishna Nagar, Delhi-110051 E-mail: fcsviveksharma@gmail.co
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	E-262, LGF, East of Kailash, New Delhi – 110065. E-mail: cirp.concor@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	July 26, 2023
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	Not Applicable
13.	Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a) Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/download (b) Not Applicable

The creditors of Container Corporation Of India Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before July 26, 2023 to the interim resolution professional at the address mentioned The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 13.07.2023 Interim Resolution Professional for Container Corporation Of India Limited Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-N01077/2020-2021/13442 Place: New Delhi

Regd. Office: Shopping Mall, 3<sup>rd</sup> Floor, Arjun Marg, Phase-I, DLF City, Gurugram - 122 002 (Haryana) CIN: L70101HR1963PLC002484 Tel.: +91-124-4334200

Website: www.dlf.in; Email: investor-relations@dlf.in

### NOTICE OF THE 58th ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE

**DLF** 

- NOTICE is hereby given that the 58<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of the Members of DLF Limited ('Company') is scheduled to be held on Friday, 4 August 2023, at 12.30 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') without the physical presence of Members at a common venue. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company.
- 2. In accordance with General Circular No. 10/2022 dated 28 December 2022, General Circular No. 2/2022 dated 5 May 2022, General Circular No. 02/2021 dated 13 January 2021, General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') read with Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5 January 2023 ('SEBI Circular') issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, (SEBI Listing Regulations), the Notice of AGM and the Annual Report containing, inter-alia the Board's Report, Auditor's Report, Audited Standalone and Consolidated Financial Statements etc. for the financial year ended 31 March 2023 have been sent electronically on 13 July 2023 to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participant(s). The copy of the Annual Report is also available on the Company's website at www.dlf.in and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. https://www.evoting.nsdl.com.
- 3. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM. Members participating through VC/OAVM shall only be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 ('Act').
- 4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the 'Rules') and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing facility to the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means including the facility of remote e-voting on resolutions proposed to be passed at AGM. Further, the business can be transacted through e-voting platform provided by NSDL. Detailed procedure for voting through remote e-voting/e-voting at AGM is provided in the AGM Notice.
- The cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of Members to avail electronic voting facility will be Friday, 28 July 2023. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the list of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM. Any person who is not a Member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. The User ID and Password for casting the electronic vote has been sent to all the Members at their registered e-mail
- The remote e-voting will commence from Tuesday, 1 August 2023 at 9.30 A.M. (IST) and end on Thursday, 3 August 2023 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote is cast by a Member, he/ she shall not be allowed to modify it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of the AGM.
- 7. Any person, who acquires shares and become Member of the Company after the electronic dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Friday, 28 July 2023, may obtain the login ID and Password by sending a request at investor-relations@dlf.in. However, if a Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then the Member may use their existing User ID and Password. The detailed procedure for obtaining User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM, which is available on the websites of the Company, Stock Exchanges and NSDL.
- 8. Please note that the Members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the instructions of voting through electronic means as mentioned in the Notice of the AGM to avoid last minute rush. Further, Members can also use the OTP based login for logging into the e-voting system of NSDL.
- 9. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same with their respective Depository Participant(s) and Members holding shares in physical mode are requested to update their e-mail addresses with KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent ('KFin'/ 'RTA') of the Company, at einward.ris@kfintech.com to receive soft copy of the Annual Report along with the Notice of the AGM.
- A member may participate at the AGM even after exercising his/ her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote
- 11. The Company has fixed Friday, 28 July 2023 as the Record Date for determining entitlement of the Members for payment of dividend, if declared at the AGM. 12. Shareholders will be able to inspect the documents referred to in the
- Notice electronically without any fee from the date of circulation of the Notice upto the date of AGM. Members seeking inspection of such documents can send an e-mail to investor-relations@dlf.in. 13. In case of any queries relating to e-voting, one may refer the
- Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre - Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's e-mail address investor-relations@dif.in.

13 July 2023 Gurugram

For **DLF LIMITED** (R.P. Punjani)

**Company Secretary** 

## DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2) 1st Floor SCD 33-34-35, Sector-17 A, Chandigarh (Additional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

mmons under Sub-section (4) of Section-19 of the Act. Read with sub-rule (2A) of rule of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 Exh. No.: 19070 Case No. OA /1710/2021

PUNJAB & SIND BANK VS NATHU RAM SINCE DECEASED THROUGH HIS LRS ETC

(3) Sh. Jagdish Chander S/o Sh. Valayati Ram Ward No. 17 Dezv

## Colony Rattia Fatehabad Haryana. SUMMONS

WHEREAS, OA/1710/2021 was listed before Hon'ble presiding officer/registrar on 04.07.2023

Whereas this Hon'ble tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act. (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 3679294.26/- (application along with copies of documents etc. annexed) In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the

defendants are directed as under:-(I) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief

prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for

attachment of properties: (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or

disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the

bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 31.08.2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this tribunal on this date: 05.07,2023

Assistant Registrar DRT -2, CHANDIGARH

## **SALE NOTICE UNDER IBC,2016** M/s. BILPOWER LIMITED (In Liquidation)

Liquidator's address: 7-1-285, Flat No. 103, Sri Sai Swapna sampada Apartments, Balkampet, Sanjeev Reddy Nagar, Hyderabad, Telangana , 500038 The following Assets and Properties of M/s.BILPOWER LIMITED (in Liquidation) having CINL51420MH1989PLC053772 forming part of Liquidation Estate are for sale by the Liquidator through e-auction on "AS IS WHERE IS," "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" as per details mentioned in the table below: I Reserve I FMD I Bid Increment

Lot	Asset	Price (Rs)	(Rs	50	Value (in Rs
Lot 1	Industrial Gala No.D-10 & D-11 (Combined 270.15 Sq.Mts at Khastra No.117, Village Raipur, Pragana Bhagwanpur, Tehsil Roorkee, District Haridwar, State Uttaranchal	81 Lakhs	8 Lakt	ıs	2 Lakhs
Lot 2	Investments in following companies 1) 1,05,73,540 Equity shares of Bil Energy System Ltd. 2) 84,16,460 Equity shares of Tarapur Transformers Ltd. 3) 100 equity shares of Rattan India Power Ltd	277.02 Lakhs	28 Laki		5 Lakhs
Par	ticulars	50 To 17 To 15 To		La	st date
Inn	Data for Cubminsion of Etial	hillity Dogwood	mede	757	07.0000

Particulars	Last date
Last Date for Submission of Eligibility Documents	27-07-2023
Date of Intimation of Qualified Bidders	01-08-2023
Last date for Inspection	08-08-2023
Last date for EMD	09-08-2023
E- Auction Date	12-08-2023
(1) Interested applicants may refer to the COMPI PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing conditions of online F-Auction, F-Auction Bird form	details of terms and

Declaration by Bidders, EMD requirement etc., available at available on website: https://bankauctions.in or through E Mail: cirpbpl@gmail.com (process specific). (2) The Liquidator have right to accept or cancel or extend or modify, etc any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. He has right to cancel E-Auction at any time.(3) E-Auction platform: https:// bankauctions.in. Interested bidders are requested to visit the abovementioned websites and submit a bid. (4) This sale notice is valid subject to the extension of liquidation period by Hon'ble NCLT, Mumbai. Sd\- Madhusudhan Rao Gonugunta, Liquidator

IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001/IP-P00181/2017-18/10360 AFA Valid till 09th Oct 2023 cirpbpl@gmail.com (Process Specific) Cell No.8074633502 & 9177715558

Date: 14-07-2023



## NOTICE TO THE SHAREHOLDERS Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section

124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules"), equity shares of the Company in respect of which dividend has not been paid / claimed for seven consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the demat account of Investor Education and Protection Fund Authority

In accordance with IEPF Rules, the Company has sent communication at the latest available address of those shareholders, whose shares are liable to be transferred to IEPF. The details of such shareholders have also been uploaded on the website of the Company at www.pcjeweller.com under 'Investors' section. In case the Company does not receive any communication from the

concerned shareholders latest by October 20, 2023, the Company shall with a view to comply with the requirements set out in IEPF Rules, transfer the shares as per the procedure stipulated in IEPF Rules without giving any further notice to the shareholders. All future benefits including dividend on such transferred shares would also be The shareholders are requested to claim their unpaid final dividend for

financial year 2015-16 and subsequent dividends before the same are transferred to IEPF. Kindly note that unpaid / unclaimed dividends for financial years prior to 2015-16 have already been transferred to IEPF. Also note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amounts and shares transferred to IEPF pursuant to IEPF Rules. Shareholders may note that unclaimed dividends and shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under IEPF Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agent - KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032 (Telangana), E-mail: einward.ris@kfintech.com, Toll Free No.: 1800-309-4001 and Phone No.: 040-67162222.

For PC Jeweller Limited

Date: July 13, 2023 (VIJAY PANWAR)

Company Secretary







New Delhi









Place: New Delhi

financialexp.epapr.in

Place: Delhi

JOURNALISM OF COURAGE

फॉर्म विन ४३ [नियम 100 देखें]

पीठ-॥, नई दिल्ली में मैसर्स पैरामाउंट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में (सीआईएन: U74899DL1995PTC066822) (कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के तहत निगमित कंपनी) कंपनी याचिका संख्या 114 (एनडी) 2021

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष

लेनदारों को अपने दावे को साबित करने के लिए नोटिस का विज्ञापन

उपर्युक्त कंपनी के लेनदारों को नोटिस दिया जाता है कि उन्हें 28 जुलाई, 2023 को या उससे पहले कंपनी / अनंतिम परिसमापक को उपर्युक्त कंपनी के खिलाफ अपने संबंधित ऋणों या दावों के प्रमाण फॉर्म विन 44 में ऋण या दावे को साबित करने वाला एक हलफनामा के साथ. जिसमें उनके संबंधित नाम, पते और ऋण या दावे के विवरण और धारा 326 / 327 के तहत प्राथमिकता के लिए कोई शीर्षक हो. प्रस्तत करने होंगे. जिसे डाक द्वारा कंपनी / अनंतिम परिसमापक के कार्यालय डब्ल्यपी-509 दूसरी मंजिल, वजीरपुर गांव, अशोक विहार, फेंज-1, दिल्ली-110052 पर डाक द्वारा भेज जा सकता है, जो उक्त तारीख से पहले जाएँ या ईमेल windingup.paramountimpex@gmail.com पर मेजें । कोई भी लेनदार जो पूर्वोक्त समय के भीतर प्रमाण का अपना हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे अपने ऋण साबित होने से पहले लाभांश के किसी भी वितरण के लाभ से बाहर रखा जाएगा, या, जैसा भी मामला हो. इस तरह के वितरण पर आपत्ति करने से।

कोई भी लेनदार, जिसने कंपनी / अनंतिम परिसमापक को लिखित में नोटिस द्वारा अपना प्रमाण भेजा हैं, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि द्वारा, ऐसे ऋण की जांच में भाग लेगा या ऐसे समय और स्थान पर दावा करेगा जैसा कि इस तरह के नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा और अपने ऋण या दावे के ऐसे और सबुत प्रस्तुत करेगा जो आवश्यक हो सकता है।

दिनांक 13 जुलाई 2023 पंकज कुमार सिंघल अनंतिम परिसमापक, पैरामाउंट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड अनंतिम परिसमापक का संचार पता : डब्ल्युपी -509, दूसरी मंजिल, वजीरपुर गांव, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052 प्रक्रिया के लिए मेल आई डी: windingup.paramountimpex@gmail.com आईबीबीआई पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00532/2017-2018/11561 आईबीबीआई के पास पंजीकत पता और ईमेल आईडी : ए-233, ग्राउंड फ्लोर, बनकर कॉलोनी, अशोक विहार, फेंज-4, दिल्ली-110052 | ईमेल : aprassociatesllp@gmail.com

## आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस आईएफएल गोल्ड लोन (आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लि. की एक इकाई) स्वर्ण नीलामी सूचना

पंजी. कार्यालयः डी-16, प्रथम तल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085, सीआईएनः U65910DL2015PLC285284

ASN260000014379 ASN260000014485 ASN260000014789 ASN260000015757. ASN260000015761. ASN260000015792. ASN980000015271.

ADN260000012954. ADN260000013549. ADN260000013619. ADN260000013668. ADN260000013941. ADN260000014098, ADN260000014204, ADN260000014570, DN260000014717 ,ADN260000014785, ADN260000015124, ADN260000015266, ADN260000015492, ADN260000015803, ADN980000015186,

दिलशाद गार्डन शाखा:- ऋण सं. D5G140000014558,D5G150000012687, DSG150000013102, DSG150000013320, DSG200000011997, DSG200000014152, DS G200000014308, DSG260000006692, DSG260000012817, DSG260000013451, DSG260000013647, DSG260000013686, DSG260000014822, DSG260000014947, करावल नगर शाखा:- ऋण सं.: KWN110000014113, KWN200000013035, ,KWN260000011986,

KWN260000012915 KWN150000011865 KWN150000014743 KWN150000015261 KWN200000014801 KWN200000014967, KWN200000015861 KWN260000012134, KWN260000012388, KWN260000012821. KWN260000013260, KWN260000013417, KWN260000014589, KWN260000014808, KWN260000015201, नजफगढ शाखा:— ऋण सं. NJF150000012167. NJF260000012377. NJF260000014249. NJF260000015495

KJK150000012988, KJK150000014284, KJK150000014452, KJK150000015900, KJK200000014217, KJK260000012139, KJK260000012883, KJK260000012914, KJK260000013127, KJK260000013402, KJK260000014421, KJK260000014445, KJK260000014615, KJK260000015183, KJK260000015536, सब्जी मण्डी शाखा:- ऋण सं. SBM260000004803, SBM260000009551, SBM260000011947, SBM260000013554,

मयर विहार शाखा:— ऋण सं: MV114000003755, MV1150000013501, MV1260000012123, MV126000001223

MV1260000012836

UTN260000009648, UTN260000012621, UTN260000013020 ,UTN260000013129, UTN260000013993.

करनाल शाखा:— ऋण सं. KNL14000009234. KNL20000009991. KNL200000015842.KNL26000000247 KNL260000015140 .KNL260000015215. KNL260000015240.KNL260000015427. KNL990000013212

चंदरलोक शाखा:- ऋण सं. CDL1050000015472, CDL140000004358 .CDL200000011949, CDL200000012415 CDL200000012837, CDL200000013093, CDL200000014784, CDL260000012186, CDL260000013066 CDL260000013124, CDL260000013916, CDL260000014954, CDL260000014994, CDL260000015049.

HST260000012671 . HST260000013043. HST260000013227. HST260000013231. HST260000013562. HST260000013621, HST260000014035, HST260000014588, HST260000015365, HST260000015524, HST260000015697 ,HST990000012535, HST990000015649.

ऋण सं. RHN150000015805, RHN180000010759, RH N200000012332.

नांगलोई शाखा ऋण सं: NG1200000013269.NG1200000014037, NG1200000015670, NGI260000013101. NG1260000015523.

यदि किसी कारणवश निर्धारित दिवस पर नीलामी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो नीलामी का संचालन 29-07-2023 को पंजीकृत कार्यालय में किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को धराज के रूप में रु. 100000/- की राशि जमा करनी होगी, इतना ही नहीं, बोलीदाता को धराज की राशि ऑनलाइन माध्यम द्वारा अधिकतम 27-07-2023 तक भी जमा करनी होगी। बोलीदाताओं के पास वैध पहचान-पत्र/पैन कार्ड/जीएसटी प्रमाणपत्र होना चाहिए। अधिक विवरणों के लिए कृपया 8595010101 पर संपर्क करें।

> प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



## पीसी ज्वैलर लिमिटेड पं**जी. कार्यालयः** सी–54. प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली–110092

फोनः 011-49714971, वेबसाइटः www.pcjeweller.com फैक्सः 011-49714972, ई-मेलः investors@pcjeweller.com कॉरपोरेट पहचान संख्याः L36911DL2005PLC134929

## शेयरधारकों के लिए सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में अंतरण

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) सहपठित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("**आईईपीएफ नियम"**) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के ऐसे इक्विटी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक समय से लामांश का भगतान / दावा नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष प्राधिकरण ("आईईपीएफ") के डीमैट खाते में अंतरण करना आवश्यक है।

आईईपीएफ नियमों के अनुसार, कंपनी ने उन शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर सुचना भेज दी है, जिनके शेयर आईईपीएफ को हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे शेयरधारकों का ब्योरा कंपनी की वेबसाइट www.pcjeweller.com पर भी 'इन्बेस्टर्स' अनुभाग के अन्तर्गत डाल दिया

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से अक्टूबर 20, 2023 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी शेयरधारकों को आगे कोई नोटिस दिए बिना आईईपीएफ नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए, आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शेयरों को हस्तांतरित कर देगी। ऐसे अंतरण किए गए शेयरों पर लामांश सहित भविष्य के सभी लाम भी आईईपीएफ को दिए जाएंगे।

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है की वे वित्तीय वर्ष 2015-16 के अदत्त अंतिम लाभांश और उसके बाद के अपने लाभांश के लिए दावा कर लें, इससे पहले कि वह आईईपीएफ को स्थानांतरित हो जाए। कृपया ध्यान दें कि 2015-16 से पहले के वित्तीय वर्षों के लिए अदत्त / अनिधयाचित लागांश को पहले ही आईईपीएफ में हस्तांतरित किया जा चुका है। यह भी ध्यान दें कि आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ में हस्तांतरित अनधियाचित लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कोई भी दावा कंपनी के खिलाफ नहीं होगा। शेयरधारक ध्यान दें कि अनधियाचित लाभांश और आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए शेयर, जिसमें ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाम शामिल हैं, यदि कोई हो, आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनके द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा किया जा सकता है।

यदि शेयरधारकों के पास इस विषय पर कोई प्रश्न हैं, तो वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सीरेलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद — 500032 (तेलंगाना), ई—मेलः einward.ris@kfintech.com, टोल फ्री नं.: 1800—309—4001 एवं फोन नं. 040—67162222 पर संपर्क कर सकते हैं।

कते पीसी ज्यैलर लिमिटेड

हस्ताक्षरित / -(विजय पवाँर) दिनांकः जुलाई 13, 2023 स्थानः दिल्ली कंपनी सचिव

सार्वजनिक घोषणा [भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन] कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रपत्र ए

संबंधित विवरण कार्पोरेट देनदार का नाम कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 10 मार्च, 1988 पाधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली देनदार निगमित / पंजीकृत है कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान L63011DL1988GOI030915 संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा पंजीकृत कार्यालयः कॉनकोर भवन, सी-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने. नई दिल्ली - 110044 प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता कॉर्पोरेट कार्यालयः कॉनकोर एनेक्सी, एनएसआईसी एमडीबीपी बिल्डिंग (तीसरी मंजिल), ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020 कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध | 12 जुलाई, 2023 अक्षमता आरंभन तिथि

ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के | 08 जनवरी, 2024 (समाधान प्रक्रिया शुरू समापन की पूर्वानुमानित तिथि होने की तारीख से 180वां दिन ) अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में विवेक शर्मा

कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल चिजी. सं.:IBBI/IPA-002/IP-N01077/2020-2021/13442 का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर एएफए 5 फरवरी, 2024 तक वैध अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और मि. नं. 449, झील खुरंजा, पी.ओ. कृष्णा नगर, दिल्ली ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है –110051 ईमेल :fcsviveksharma@gmail.com 0. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का ई-262, एलजीएफ, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 पञाचार हेत् प्रयुक्त, पता और ई—मेल ईमेल : cirp.concor@gmail.com 1. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 26 जलाई, 2023 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल हारा धारा 21 की कुछ नहीं

4 उप-धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के लागू नहीं रूप में कार्य करने हेत् चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)

14. (क) संबंधित ग्रंपत्र और (क) वेब लिक: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (ख) अधिकत प्रतिनिधियों का विवरण (ख) लाग् नही लदहारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक 12 **जुलाई, 2023 को कंटेनर** कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

कंटेनर कॉर्पों रेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेनदारों से एतदद्वारा अपने दावों का प्रमाण 26 जुलाई 2023 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तृत करने की मांग की जाती है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों हारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रोंनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं ।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। विवेक शर्मा दिनांकः 13.07.2023 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-002/IP-N01077/2020-2021/13442

# डीएलएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः शोंपिंग गोंल, तीसरा तल, अर्जुन मार्ग, फेस—I, डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम — 122 002 (हरियाणा) CIN : L70101HR1963PLC002484 फोन: +91-124-4334200 वेबसाइटः www.dlf.in; ई—मेल : investor-relations@dlf.in

**DLF** 

## 58वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और रिकार्ड तिथि की सूचना

 एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 58वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 को दोप. 12.30 बजे (आईएसटी) आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ('ओएवीएम') के द्वारा आयोजित की जाएगी । बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा ।

2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपन्न सं. 10 / 2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022, सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022, सामान्य परिपन्न सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, सामान्य परिपन्न सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 एवं अन्य लाग् परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 ('सेबी परिपत्र') और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथा संशोधित ("सेबी सूचीयन विनियम") के अनुपालन में एजीएम की सचना और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण आदि शामिल हैं, कम्पनी के उन सदस्यों को 13 जुलाई, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दिये गये हैं, जिनके ई-भेल आईडी कम्पनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कम्पनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <u>https://www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध है ।

 सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे और कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 103 के अंतर्गत इसकी गणना कोरम के प्रयोजन हेत् की जाएगी।

 अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 यथासशोधित ('नियम') और सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा से वोट देने तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम में वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अलावा, एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से व्यवसाय का निष्पादन किया जा सकता है। रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम सूचना में दी गई है।

5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की योग्यता के निर्धारण के प्रयोजन हेत् कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 होगी। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। ऐसा सदस्य जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को मात्र जानकारी का प्रयोजन समझें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के लिए युजर आईडी एवं पासवर्ड सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेज

 रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 1 अगस्त, 2023 को प्रातः 9.30 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बहस्पतिवार, 3 अगस्त, 2023 को साय 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड़युल बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सचना में दिये गये हैं।

 ऐसा व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को शेयर धारण करता है, वह investor-relations@dlf.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि सदस्य एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह अपना वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में भी दी गई है जो कि कम्पनी, स्टॉक एक्सचेंजों और एनएसडीएल की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।

 कृपया नोट करें कि सदस्यगण जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड नहीं है या अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड भूल गए हैं, वह इसे अंतिम समय में जल्दबाजी से बचने के लिए एजीएम की सूचना में वर्णित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के दिशानिर्देशों का पालन करके इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्यगण एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर लॉगिंग के लिए ओटीपी आधारित लॉगइन का भी उपयोग कर सकते हैं।

9. एजीएम की सुचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे पंजीकृत कराएं और भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ('केफिन' / 'आरटीए') के पास einward.ris@kfintech.com पर अपना ई—मेल पता अपखेट कराएं।

10. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चुका सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. कम्पनी ने लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो जाता है, के भूगतान के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण हेत् शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 रिकार्ड तिथि के रूप में

12. सदस्यगण सूचना के भेजने की तिथि से एजीएम की तिथि तक बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिकली सूचना में संदर्भित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए योग्य होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य ई-मेल investor-relations@dlf.in पर मेल भेज सकते हैं।

13. ई—वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 022 - 4886 7000 एवं 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महान्ने-विरश्ठ प्रबंधक एनएसडीएल, के पास evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोनिक माध्यम से वोटिंग से जुड़ी शिकायतों का निपटान करेंगे। सदस्यगण कम्पनी के कम्पनी सचिव को ई—मेल investor-relations@dlf.in पर भी लिख सकते हैं।

13 जुलाई, 2023

कृते डीएलएफ लिमिटेड

हस्ता / -(आर.पी. पुंजानी) कम्पनी सचिव दक्षिण रलव

थिरुवनंतपुरम मंडल-विद्युत/कार्य निविदा सुचना सं.: वी-ईजी-ओटी-10-2023-2024 भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक/विद्युत-जन./त्रिवेन्द्रम मंडल द्वारा ई-निविदा

<b>हम</b> सं	कार्य का नाम	मूल्य (रु.)	ईएमडी (रु.)
1	त्रिवेन्द्रम मंडल-पुरानी परिसम्पत्तियों के विस्थापन द्वारा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की विश्वसनीयता का सुधार	24423607/-	272100/-
2	त्रिवेन्द्रम मंडलः विभिन्न स्टेशनों पर इस्कैलेटर्स एवं लिफ्टों के लिये विद्युत आपूर्ति व्यवस्था।	912090/-	18300/-
3	त्रिवेन्द्रम मंडलः कोचुवेली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लान्ट के प्रावधान द्वारा प्रस्तावित गार्बेज निपटारा।	2005757/-	40100/-
बुलने ।	की तिथि: क्रम सं. 1 से 3: 31.07.2023		

आमंत्रित है। केवल ऑन-लाइन बोली स्वीकार की जाएगी।

विस्तृत एनआईटी, बोली दस्तावेज आदि वेबसाईट पोर्टल www.ireps.gov.in में देखी/डाउनलोड की जा सकती है। ईएमडी का भुगतान ऑनलाइन भुगतान गेट वे द्वारा किया जायेगा। संवर्धन/शुद्धि पत्र, विस्तार, स्पष्टीकरण आदि केवल वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। स्वयं को अद्यतन बनाये रखने के लिये बोलीदाता नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। मंडल रेलवे प्रबंधक/विद्युत-जन./त्रिवेन्द्रम

Follow us on: twitter.com/GMSRailway

# TATA

टाटा केपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क,

गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013 सीआईएन नं.: यू67190एमएच2008पीएलसी187552

माग सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबिक. अधोहस्ताक्षरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकार के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रीं) (सभी एकल क्तप में अथवा संयुक्त रूप में ''दायित्वधारकों यानी ऑब्लिगर्स'' के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित मांग सूचना / ओं में अंकित बकाया धनराशियों का, संबंधित सूचना / ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भूगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथा जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त दायित्वधारक(गण) / विधिक उत्तराधिकारी( गण) / विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे ऐसा करने के इच्छुक हैं, किसी भी कार्यदिवस फ सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रति/यां प्राप्त कर लें।

उपरोक्त के संबंध में, एतदद्वारा उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यो को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि टीसीएचएफएल को, संबंधित सूचना / ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां नीचे इसमें नीचे उल्लिखित धनराशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों / आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, निम्न स्तंभ (घ) में अंकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा / अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होनेवाले निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भूगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभूगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को बंधककत किया गया है।

अनुबंध संख्या	दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/ विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशि (रू.) निम्न तिथि के अनुसार*	मांग सूचना की तिथि एनपीए की तिथि
TCHHF	अहद उमर खान	07.07.2023 के अनुसार,	08-07-2023
039900 010000 1934	(ऋणकर्ता) और पूजा चौहान (सह–ऋणकर्ता)	रु. 15,31,070 / – (रुपये पंद्रह लाख इकतीस हजार सत्तर मात्र)	04-07-2023

प्रतिभृत परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधककृत संपत्तियों का विवरणः वाणिज्यिक दुकान / स्थान सं. टी-64 / ई के समस्त भाग तथा अंश, जो तृतीय तल पर, अधि निर्मित क्षेत्राधिमापन 176 वर्ग फूट (16.35 वर्ग मीटर) लगभग एवं पॉलीलाइन क्षेत्रफल 88 वर्ग फूट (8.18 वर्ग मीटर) लगभग तथा साधारण क्षेत्रफल 88 वर्ग फूट (8.18 वर्ग मीटर) लगभग गैलेक्सी ब्लू, सैप्फायर प्लाजा, भूखंड सं. सी-03, सेक्टर-04, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश) में स्थित तथा आबंटन पत्र में वर्णित समस्त अन्य सख–सविधाओं के साथ है।

\*संबंधित मांग सूचना दिनांकित उपरांकित में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानूसार दर पर भावी ब्याज अतिरिक्त ब्याज, आकरिमक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा / अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानूसार टीसीएचएफएल को भूगतान करने में विफल होंगे तो टीसीएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) / अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति—अनुमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जाएगा। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,

दिनांक : 14-07-2023 स्थान : दिल्ली

कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

## ज्ञ्चपासा एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 सीआईएन: L40101HR1975G01032564 ईपीएबीएक्स सं . 0129-2588110/2588500

ई-मेल: investorcell@nhpc.nic.in वेबसाइट : www.nhpcindia.com सचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम

2016 (''आईईपीएफ नियम), यथा संशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013(''अधिनियम'') की

धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्दवारा यह सुचित किया जाता है कि जिन शेयरों के संबंध में लगातार सात या उससे अधिक वर्षों से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या शेयर धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित कर दिया जाएगा। आईईपीएफ नियम में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में कंपनी ने दिनांक 26 जून, 2023 व अपने पत्र के माध्यम से संबंधित शेयरधारकों, जिनके शेयर 26 नवंबर, 2023 तक आईईपीएफ एतद्दवारा अंतरण के लिए देय हैं, को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर सूचित किया है कि वे अपने अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांशों के लिए दावा प्रस्तुत करें । ऐसे शेयरधारकों से संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com o निवेशक कॉर्नर o आईईपीएफ विवरण  $ildе{1}$  अपलोड किए गए

संबंध में पर्याप्त नोटिस माना जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि आईईपीएफ नियम वे अनुपालन में ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ अर्थात लाभांश, बोनस शेयर आदि को भी आईईपीएफ में अन्तरित किया जाएगा जिन शेयरों के लिए मार्च, 2023 तक लगातार सात या इससे अधिक वर्षों तक लाभांश अदावाकृत या अप्रदत्त रहे हैं, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण में पहले ही अंतरित किया जा चुका है। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.npcindia.com पर उपलब्ध हैं ।

हैं। कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण वे

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे वर्ष 2015—16 से लेकर अब तक के वर्षों के लिए अदावाकृत लाभांश का दावा प्रस्तत करने के लिए पैनकार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति. पते का प्रमाण और क्लाइंट मास्टर लिस्ट सहित अपना खाता संख्या या फोलियों नम्बर का उल्लेख करते हुए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को तुरंत एक औपचारिक पत्र भेजें। यदि कंपनी रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को 27 अक्तूबर, 2023 या ऐसी अन्य तारीख, जो आगे बढाई जा सकती है, तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी आईईपीएफ नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार बिना अन्य सूचना दिए गए शेयरों को आईईपीएफ में

संबंधित शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के हस्तांतरित किए जाने हैं, वो ध्यान दें कि नियमानुसार इन शेयरों के डीमेटेरियलाइजेशन तथा इन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से कंपनी उनके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के बदले में नया प्रमाणपत्र जारी करेगी। इसके साथ ही शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत मूल प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे और यह बिक्री योग्य नहीं रह जाएंगे ।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि www.iepf.gov.in पर उपलब्ध आईईपीएफ नियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद आईईपीएफ में अन्तरित किए गए शेयरों और अदावाकृत राशियों के लिए आईईपीएफ से इन्हें वापस लेने का दावा किया जा सकता है। कृपया नोट करें कि उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में आईईपीएफ में अंतरित की गई अदावाकृत राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

यदि आप कोई प्रश्न पछना चाहते हैं तो निःसंकोच कंपनी / अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड रे निम्नलिखित पते / ईमेल / टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा.121003 टेलीफोनः 0129-2250437 ईपीएबीएक्स नंबरः 0129-2588110/2588500 ईमेलः investorcell@nhpc.nic.in

वेबसाइट: www.nhpcindia.com

अंतरित करने की कार्रवाई आरंभ कर देगी।

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 टेलीफोनः 011-42541234, 011-23541234 फैक्सः 011-42541201, 011-23552001 ईमेलः alankit.nhpc@alankit.com

वेबसाइटः www.alankit.com

टोल फ्री नं. : 1860 1212 155

सेबी के दिनांक 16.03.2023 के परिपत्र के अनुसार, जिन शेयरधारकों के फोलियो में उनकी ईमेल आईडी, बैंक खाते और पैन विवरण आदि से संबंधित केवाईसी पूर्ण नहीं हैं, उन शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 01 अक्तूबर, 2023 को या उससे पहले प्रासंगिक आईएसआर फॉर्म (कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध) alankit.nhpc@alankit.com पर भेजकर आरटीए के साथ इसे पंजीकृत / अपडेट करा लें। ऐसे फोलियो जिसमें दस्तावेजों / विवरणों में से कोई भी उक्त तारीख को या उसर्से पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। डीमैट मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने उपरोक्त विवरणों को अपडेट / पंजीकृत कर लें ।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 (1) के अनुसरण में, प्रतिभृतियों के हस्तांतरण के अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभृतियों को डिपोजिटरी के पास डीमेटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है। अतः शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को डीमेटेरियलाइज करवा लें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

(रूपा देब)

दिनांक: 13 जुलाई, 2023 स्थान : फरीदाबाद कम्पनी सचिव

दक्षिण रलव सेन्ट्रल वर्कशॉप्स, गोल्डन रॉक, तिरुचिरापल्ली-620004 एक्स्टा डिवीजन

ई-निविदा सुचना सं. सीडब्ल्यू/सी/192/स्लंग वाटर टैंक के अंतर्गत एलएचवी एसी में एपॉक्सी कोटिंग तिथि 10.07.2023

''50 एसएस-2 एवं एसएस-3 कोचेज में स्लंग टैंक्स के अंतर्गत एलएचवी के सम्पूर्ण बाहरी सर्फेस एरिया में एपॉक्सी हेवी ड्यूटी, नान-इन्फ्लैमेबल तथा वाटर प्रफ, लीक एरेस्ट कोटिंग की आपूर्ति एवं अनुप्रयोग।" मूल्य (रु.): 25,54,700/-,

बोली प्रतिभृति राशि (रु.): 51,100/-निविदा दस्तावेज मूल्य (रु.): 3000/-, अनुबंध अवधि: 12 माह, निविदा बंद होने की तिथि एवं समय: 1.08.2023 के 12.00 बजे। सम्पूर्ण विवरण तथा निविदा दस्तावेज www.ireps.gov.in पर

> सहायक कार्य प्रबंधक केरिएज कृते मुख्य वर्कशॉप प्रबंधक जीओसी

Follow us on: twitter.com/GMSRailway

# IndiaShelter

इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः छठा तल, प्लॉट नं. 15, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122002, हरियाणा

इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('**'आईएसएफसीएल''**) जिसकी गाजियाबा शाखा शॉप नं. 15, भूतल, प्लॉट नं. 18 र्ब एस्टोरिया बा उलेबार्ड, राजनगर, डिस्ट्रि. सेन्टर, ब्लॉक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002'' में है, बेहतर अवस्थित तथा वृहत्त ग्राहक सम्पर्क प्राप् करने के लिये 15.10.2023 से "18, 1ला तल डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, संजय नगर, गाजियाबाद उ.प्र.-201002'' में स्थानांतरित हो रहा है। कपया ध्यान रहे कि 15.10.2023 से हमारे वर्तमान ग्राहकों की खाता नये पते पर शाखा में स्थानांतरित

हो जाएगी। लेकिन, हम आपको वचन देतें है कि इससे खाता की आपकी सेवा प्रभावित नहीं होर्ग तथा ऋण खाता से संबंधित किसी भी पूछताछ लिये आप टोल-फ्री नम्बर 18005728888 प सम्पर्क कर सकतें हैं। पनः, हमने श्री सरेन्दर मनराल को स्थानीय सेवा प्रदाता के रूप में मनोनीत किया है। उनसे इंडिया

शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शाखा गाजियाबाद, सम्पर्क नं, १८९९७७८६०४६ पर सम्पर्क किया जा सकता है। हम आपको वचन देते है कि हर समय आप के सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान की जाएगी।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये कृपया उक्त सम्पर्क नम्बर पर आईएसएफसीएल शाखा सम्पर्क करें। कृत्ते एवं के लिये, आईएसएफसीएल

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में } केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष क्रंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

तपस्वी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U74110DL2006PTC145098) जिसका पंजीकृत कार्यालय : एस-.1/31, ओल्ड महावीर नगर, तिलक नगर के पास,

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

दिल्ली -110018 में हैं, के मामले में ---- आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता रतद्ववारा सार्वजनिक सचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्ये" में स्थानांतरित करने के लिए 10 जुलाई 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम न्नापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर **सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अत्योदयभवन, सीजीओकॉम्पलैक्स, नईदिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें

एस-1/31,ओल्डमहावीरनगर,तिलकनगर केपास,दिल्ली-110018

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से। तपस्वी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड दिनांक : 13.07.2023

डीआईएन : 07261435

प्ररूप संख्या यूआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और

कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राविकृत) नियम, 2014

के नियम 4 (1) के अनुसरण में} सचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में **रजिस्ट्रार, केंद्रीय** पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव **(हरियाणा), पिन कोड- 122050** को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की "ई-सोशल पार्टनरशिप फर्म" एक साझेदारी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याप

XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के

रूप में पंजीकृत किया जाए। कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं:

सभी प्रकार के कार्यपालकों, मध्य प्रबंधन स्टाफ, कनिष्ट स्तर के कर्मचारियों, कामगारों, श्रमिकों को कुशल/ अकुशल आदि प्रदान करने, चयन, साक्षात्कार, प्रशिक्षण और व्यक्तियों, निकायों, क,पोरेट, समाजों, उपक्रमों, संस्थानों, संघों, सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों आदि के लिए आवश्यक है, नियोजित करने का व्यवसाय करना। व मानव संसाधन प्रबंधकों, परामर्श्नदाताओं और

सलाइकारों के रूप में सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करना और व्यक्तियों, निकायों, कॉपोरेट, सोसाइटियों, उपक्रमों, संस्थानों, संघों, सरकार, स्थानीय प्राधिकरणो आदि के लिए आवश्यक समाप्ति और विस्थापन सहित संविदात्मक सेवाओं से जुड़े रोजगार मामलों और अन्य मानव संसाधन सेवाओं पर संविदात्मक सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना । प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद

हापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण **160वी, वेस्टर्न एवेन्यु**, सैनिक फार्म, खानपुर, नई दिल्ली-110062 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।

सुचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सुचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें।

ई-सोशल पार्टनरशिप फर्म के लिए तिथि : 14.07.2023 1. आदेश गुप्ता (साझेदार) स्थान : नई दिल्ली 2. विनय पसरीचा (साझेदार)

conclusion arrive

Inform your opinion detailed analysis

# **Express** Indian